



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

26 वैशाख 1939 (श0)  
(सं0 पटना 395) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

---

सं0 08/आरोप-01-34/2014,सां0प्र0-882

सामान्य प्रशासन विभाग

---

संकल्प

24 जनवरी 2017

श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-993/08, 766/11 के विरुद्ध अंचलाधिकारी, चंडी (नालन्दा) के पद पर पदस्थापन के दौरान खाता पुस्तिका तैयार करने में शिथिलता, राजस्व संग्रह में कोताही एवं अनुशासनहीनता बरतने से संबंधित आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के आलोक में उक्त प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-7187, दिनांक 24.06.2011 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी .संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1127, दिनांक 26.07.2014 द्वारा सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर आरोपित पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए उन्हें विभागीय स्तर से निदेशित करने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में विभागीय स्तर से भी पत्रांक-12850, दिनांक 15.09.2014 द्वारा श्री नाथ को निदेशित किया गया। कालान्तर में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-33, दिनांक 11.01.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें सुनवाई की बहुधा महत्वपूर्ण तिथियों पर श्री नाथ के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अन्ततः उनके विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताया गया। विभागीय पत्रांक-1859, दिनांक 05.02.2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर श्री नाथ से बचाव बयान/द्वितीय कारण-पृच्छा स्पष्टीकरण माँगी गयी जो समुचित अवसर दिये

जाने के बावजूद उनसे अप्राप्त रहा। श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से० ने विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं किया एवं लगातार अनुपस्थित रहे साथ ही विभागीय पत्राचार का भी उत्तर नहीं देकर घोर अनुशासनहीनता का परिचय दिया।

3. अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षों के लिए संचयात्मक प्रभाव से अवनति (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) का दंड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-12640, दिनांक 16.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगा गया। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2754, दिनांक 21.12.2016 द्वारा प्राप्त हुई।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-993/08, 766/11 के विरुद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

(क) कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षों के लिए संचयात्मक प्रभाव से अवनति का दंड। (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी)

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 395-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>